

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 12] नई दिल्ली, शनिवार, मार्च 24—मार्च 30, 2018 (चैत्र 3, 1940)

No. 12] NEW DELHI, SATURDAY, MARCH 24—MARCH 30, 2018 (CHAITRA 3, 1940)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

[भाग I—खण्ड 2]

[PART I—SECTION 2]

[(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leaves etc. of Govt. Officers issued by the Ministries of the Govt. of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

प्रधान मंत्री कार्यालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 2018

सं. ए.-22013/1/2017-पीएमई.—श्री प्रदीप कुमार बाली, अवसर सचिव (सीएसएल नं. 6245) ने प्रधान मंत्री कार्यालय में अवसर सचिव के पद का कार्यभार छोड़ दिया है और उनकी सेवाएं दिनांक 6 मार्च, 2018 के अपराह्न से उच्चतर शिक्षा विभाग को सौंपी जाती हैं।

ए. के. दास, अवसर सचिव

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 21 फरवरी 2018

सं. ए.-12025/1/2015-प्रशा.-(वि.वि.).—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर, राष्ट्रपति, निम्नलिखित अधिकारियों को पे मैट्रिक्स के लेवल 11 [रूपए 67700-208700] में विधायी विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि

सेवा का ग्रेड IV) के पद पर कार्य करने के लिए प्रत्येक अधिकारी के समक्ष उल्लिखित तिथि से तथा अगले आदेशों तक सहर्ष नियुक्त करते हैं।

(i) श्री प्रवीण कुमार तिवारी दिनांक 20.02.2018 (अपराह्न) से

(ii) श्री चंद्र शेखर शर्मा दिनांक 21.02.2018 (पूर्वाह्न) से

2. श्री प्रवीण कुमार तिवारी तथा श्री चंद्र शेखर शर्मा दिनांक 21.02.2018 से दो वर्षों की अवधि के लिए परिवीक्षा पर रहेंगे।

3. श्री प्रवीण कुमार तिवारी की नियुक्ति अस्थायी है तथा चरित्र एवं पूर्ववृत्त के विस्तृत सत्यापन पर निर्भर है। यदि उनके चरित्र तथा पूर्ववृत्त सत्यापित नहीं हुए अथवा स्व-घोषणा पत्र में उन्होंने कोई गलत सूचना दी है तो उनकी नियुक्ति तत्काल रद्द कर दी जाएगी तथा नियमानुसार अन्य आपराधिक/कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 8 मार्च 2018

सं. ए.-12025/1/2015-प्रशा.-(वि.वि.).—संघ लोक सेवा आयोग की सिफारिश पर राष्ट्रपति, श्री संजय कुमार मीना को सहायक विधायी परामर्शी (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड IV) के पद पर कार्य करने हेतु पे मैट्रिक्स के लेवल 11 [रुपए 67700-208700] में विधि और न्याय मंत्रालय, विधायी विभाग में दिनांक 07.03.2018 की पूर्वाह्न से सहर्ष नियुक्त करते हैं।

2. श्री संजय कुमार मीना 07.03.2018 से दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेंगे।

3. श्री संजय कुमार मीना की नियुक्ति अस्थायी है तथा चरित्र प्रमाण-पत्र, पूर्ववृत्त एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र के विस्तृत सत्यापन पर निर्भर है। यदि उनके चरित्र प्रमाण-पत्र, पूर्ववृत्त एवं अनुसूचित जनजाति प्रमाण-पत्र सत्यापित नहीं हुए अथवा स्व-घोषणा पत्र में उन्होंने कोई गलत सूचना दी है तो उनका नियुक्ति पत्र तत्काल रद्द कर दिया जाएगा तथा नियमानुसार अन्य आपराधिक/कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

बी. एम. शर्मा, उप सचिव

विधि कार्य विभाग

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 2018

सं. 1/6/2014-प्रशा.-1(वि.का.).—राष्ट्रपति, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में निम्नलिखित सहायक विधि सलाहकारों (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-IV) को उनके प्रत्येक के नाम के समक्ष उल्लिखित नियुक्ति की तारीख से छह माह की अवधि के लिए या पदों के नियमित आधार पर भरे जाने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वेतन मैट्रिक्स के स्तर-12 में तदर्थ आधार पर उप विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) के पद पर नियुक्त करते हैं :-

क्रम सं.	नाम	नियुक्ति की तारीख
1.	श्री बीरसिंह माझी	23.01.2018 (अपराह्न)
2.	श्री नीरज कुमार	23.01.2018 (अपराह्न)
3.	श्रीमती कुसुमलता सिंह	23.01.2018 (अपराह्न)
4.	श्री आर. एस. श्रीनेत	16.02.2018 (अपराह्न)
5.	श्रीमती आरती चोपड़ा	16.02.2018 (अपराह्न)
6.	श्री जय प्रकाश दुवे	01.03.2018 (पूर्वाह्न)

अनिल कुमार जोशी, उप सचिव

सं. 32012/1/2018-प्रशा. I(वि.का.).—राष्ट्रपति, विधि कार्य विभाग, विधि और न्याय मंत्रालय में श्री आर. के. श्रीवास्तव, उप विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-III) को दिनांक 28 फरवरी, 2018 (पूर्वाह्न) से उनके नियमित आधार पर प्रोन्नत होने तक या अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, वेतन मैट्रिक्स के स्तर 13-में तदर्थ आधार पर अपर विधि सलाहकार (भारतीय विधि सेवा का ग्रेड-II) के पद पर नियुक्त करते हैं।

अनिल कुमार जोशी, उप सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 5 मार्च 2018

सं. ए-38014/16/2017-प्रशा.-I.—अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर श्री अजय मित्तल, आई.ए.एस. (एचपी:1982), सचिव, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, दिनांक 28 फरवरी, 2018 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो गए।

अजय कुमार सिंह, अवर सचिव

केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो

नई दिल्ली, दिनांक 13 मार्च 2018

सं. 03/55/2014.—श्री एस. एल. गर्ग, पुलिस उपाधीक्षक, के.अ.ब्यूरो, एसी-VI/एसआईटी, नई दिल्ली ने स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के उपरांत दिनांक 29.12.2017 के पूर्वाह्न से केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो में पुलिस उपाधीक्षक के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

डी. पी. सिंह, प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

नई दिल्ली, दिनांक 19 मार्च 2018

सं. 03/109/2010.—श्री ली. थॉमस शालू, पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो, विशेष पुलिस स्थापन, एसीबी, इम्फाल ने अधिवर्षिता की आयु प्राप्त होने पर 28.02.2018 के अपराह्न से पुलिस उपाधीक्षक, केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो के पद का कार्यभार त्याग दिया है।

डी. पी. सिंह, प्रशासनिक अधिकारी (कार्मिक)

विदेश मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 4 जनवरी 2018

सं. 04/पीबी-2017.—विदेश मंत्रालय में कार्यरत श्री एस. राजन, निजी सचिव (जन्म तिथि 02.12.1957) पूर्व निजी सचिव [भारतीय विदेश सेवा (ख) के आशुलिपिक संवर्ग में ग्रेड-I आशुलिपिक] अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने के पश्चात् 31 दिसंबर, 2017 के अपराह्न से सरकारी सेवा से सेवानिवृत्त हो चुके हैं।

जितेन्द्र कुमार सिंह, प्रशासनिक अधिकारी (पीबी-II)

रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय

(रसायन एवं पेट्रो-रसायन विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 31 जनवरी 2018

सं. ए-19011/1/2018-स्थापना.—सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय के दिनांक 04.12.2017 के आदेश सं. 12015/01/2017-आईएसएस एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण के दिनांक 02.01.2018 के आदेश सं. 1/29/2016-प्रशा. II (सीईए) के

अनुसरण में राष्ट्रपति, श्री राकेश कुमार कामरा को, उनके स्थानांतरण के फलस्वरूप 05.01.2018 की अपराह्न से सातवें वेतन आयोगानुसार वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 में रसायन एवं पेट्रोरसायन विभाग में उप महानिदेशक के रूप में सहर्ष नियुक्त करते हैं।

टी. पी. एन. सिंह, अवर सचिव

परमाणु ऊर्जा विभाग

(निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय)

मुंबई, दिनांक 14 मार्च 2018

सं. निसेसंप्रति/प्र/9(334)/2018-भर्ती/300.—राष्ट्रपति, श्री मयंक अग्रवाल को निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर रु. 61,300/- के प्रारंभिक वेतन में (3 अतिरिक्त वेतनवृद्धियों सहित) दिनांक 01/08/2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

एस. कोमलवल्ली, प्रशासन अधिकारी-III

सं. निसेसंप्रति/प्र/9(334)/2018-भर्ती/301.—राष्ट्रपति, श्री मयंक शर्मा को निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर रु. 61,300/- के प्रारंभिक वेतन में (3 अतिरिक्त वेतनवृद्धियों सहित) दिनांक 01/08/2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

एस. कोमलवल्ली, प्रशासन अधिकारी-III

सं. निसेसंप्रति/प्र/9(334)/2018-भर्ती/302.—राष्ट्रपति, श्री शुभम तालियान को निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर रु. 61,300/- के प्रारंभिक वेतन में (3 अतिरिक्त वेतनवृद्धियों सहित) दिनांक 01/08/2016 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

एस. कोमलवल्ली, प्रशासन अधिकारी-III

सं. निसेसंप्रति/प्र/9(334)/2018-भर्ती/303.—राष्ट्रपति, श्री सुयश सुभाष पाटकर को निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर रु. 61,300/- के प्रारंभिक वेतन में (3 अतिरिक्त वेतनवृद्धियों सहित) दिनांक 01/08/2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

एस. कोमलवल्ली, प्रशासन अधिकारी-III

सं. निसेसंप्रति/प्र/9(334)/2018-भर्ती/304.—राष्ट्रपति, श्री सौभाग्य कर्मकार को निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर रु. 61,300/- के प्रारंभिक वेतन में (3 अतिरिक्त वेतनवृद्धियों सहित) दिनांक 01/08/2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

एस. कोमलवल्ली, प्रशासन अधिकारी-III

सं. निसेसंप्रति/प्र/9(334)/2018-भर्ती/305.—राष्ट्रपति, श्री तजिन्दर सिंह लांबा को निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर रु. 61,300/- के प्रारंभिक वेतन में (3 अतिरिक्त वेतनवृद्धियों सहित) दिनांक 01/08/2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

एस. कोमलवल्ली, प्रशासन अधिकारी-III

सं. निसेसंप्रति/प्र/9(334)/2018-भर्ती/306.—राष्ट्रपति, श्री सिद्धार्थ धारीवाल को निर्माण, सेवा एवं संपदा प्रबंध निदेशालय, परमाणु ऊर्जा विभाग में वैज्ञानिक अधिकारी/सी के पद पर रु. 61,300/- के प्रारंभिक वेतन में (3 अतिरिक्त वेतनवृद्धियों सहित) दिनांक 01/08/2017 के पूर्वाह्न से आगामी आदेशों तक वेतन मैट्रिक्स के स्तर-10 में अस्थायी रूप से नियुक्त करते हैं।

एस. कोमलवल्ली, प्रशासन अधिकारी-III

जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 6 मार्च 2018

सं. 7/19/2014-सीजीडब्ल्यूबी.—राष्ट्रपति, निम्नलिखित सहायक जल भूवैज्ञानिकों को, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में, जब से उन्होंने वेतन मैट्रिक्स (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-3, 15600-39100/- रुपए + 5400/- रुपए ग्रेड वेतन) के स्तर-10 में कनिष्ठ जल भूवैज्ञानिक के पद का कार्यभार ग्रहण किया है, तब से उन्हें उनके नाम के आगे दर्शायी गई तिथि से कनिष्ठ जल भूवैज्ञानिक (वैज्ञानिक 'बी' समूह-क' राजपत्रित) के पद पर पदोन्नत करते हैं :

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	कनिष्ठ जल भूवैज्ञानिक के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि
1.	श्री सुजीत कुमार	14.12.2017 (अपराह्न)
2.	श्री अनमोल शर्मा	15.12.2017 (पूर्वाह्न)
3.	श्री जी. श्रीनाथ	18.12.2017 (अपराह्न)
4.	श्री एम. पानीर	14.12.2017 (अपराह्न)
5.	डॉ. के. राजा राजन	14.12.2017 (अपराह्न)
6.	श्री अनिल कुमार सिंह	14.12.2017 (अपराह्न)
7.	श्री एस. चक्रवर्ती	15.12.2017 (पूर्वाह्न)
8.	श्रीमती एस. सरिता	14.12.2017 (अपराह्न)

ए. के. वाही, अवर सचिव

नई दिल्ली, दिनांक 9 मार्च 2018

सं. 32012/9/2017-जीडब्ल्यूई.—राष्ट्रपति, श्री आलोक कुमार दूबे, क्षेत्रीय निदेशक (अभियांत्रिकी) को केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड में 23.01.2018 (पूर्वाह्न) से वेतन मैट्रिक्स के स्तर-14 (पूर्व संशोधित वेतनमान पीबी-4, 37400-67000/- रुपये + 10000 रुपये ग्रेड वेतन) में सदस्य (अभियांत्रिकी) के रूप में नियुक्त करते हैं।

ए. के. वाही, अवर सचिव

PRIME MINISTER'S OFFICE

New Delhi, the 6th March 2018

No. A-22013/1/2017-PME.—Shri Pradeep Kumar Bali, Under Secretary (CSL No. 6245) has relinquished the charge of the post of Under Secretary in the Prime Minister's Office and his services have been placed at the disposal of the Department of Higher Education with effect from the afternoon of 6th March, 2018.

A. K. DAS, Under Secretary

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(LEGISLATIVE DEPARTMENT)

New Delhi, the 21st February 2018

No.A.12025/1/2015-Admn.I(LD).—On recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint following officers to officiate as Assistant Legislative Counsel (Grade IV of Indian Legal Service) in Level 11 (Rs. 67700-208700/-) in the Pay Matrix in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the date mentioned against each officer and until further orders:-

(i) Shri Praveen Kumar Tiwari w.e.f. 20.02.2018 (A.N.)

(ii) Shri Chandra Shekhar Sharma w.e.f. 21.02.2018 (F.N.)

2. Shri Praveen Kumar Tiwari and Shri Chandra Shekhar Sharma will be on probation for a period of two years with effect from 21.02.2018.

3. The appointment of Shri Praveen Kumar Tiwari is provisional and is subject to detailed verification of character and antecedents. In case the character and antecedents are found not verified or any false information is given in his self-declaration, the appointment will be cancelled forthwith and other criminal/legal action will also be taken as per rule.

B. M. SHARMA, Dy. Secretary

New Delhi, the 8th March 2018

No.A.12025/1/2015-Admn.I(LD).—On recommendation of the Union Public Service Commission, the President is pleased to appoint Shri Sanjay Kumar Meena to officiate as Assistant Legislative Counsel (Grade IV of Indian Legal Service) in Level 11 (Rs. 67700-208700/-) in the Pay Matrix in the Legislative Department, Ministry of Law and Justice with effect from the forenoon of 07.03.2018.

2. Shri Sanjay Kumar Meena will be on probation for a period of two years with effect from 07.03.2018.

3. The appointment of Shri Sanjay Kumar Meena is provisional and is subject to detailed verification of character and antecedents and ST certificate. In case the character and antecedents or claim of belonging to Scheduled Tribe are found not verified or any false information is given in his self-declaration, the appointment will be cancelled forthwith and other criminal/legal action will also be taken as per rule.

B. M. SHARMA, Dy. Secretary

DEPARTMENT OF LEGAL AFFAIRS

New Delhi, the 6th March 2018

No.1/6/2014-Admn.I(LA).—The President is pleased to appoint the following Assistant Legal Advisers (Grade-IV of Indian Legal Service) to the posts of Deputy Legal Adviser (Grade-III of Indian Legal Service) in the level 12 of Pay Matrix in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, on ad hoc basis with effect from the dates mentioned against their names for a period up to six months from the date of their appointments respectively or till the posts are filled on regular basis or until further orders, whichever is the earliest:-

Sl. No.	Name	Date of Appointment
1.	Shri Birsing Majhi	23.01.2018 (AN)
2.	Shri Neeraj Kumar	23.01.2018 (AN)
3.	Smt. Kusum Lata Singh	23.01.2018 (AN)
4.	Dr. R. S. Shrinet	16.02.2018 (AN)

Sl. No.	Name	Date of Appointment
5.	Smt. Arti Chopra	16.02.2018 (AN)
6.	Shri Jayprakash Dubey	01.03.2018 (FN)

A. K. JOSHI, Dy. Secretary

No. 32012/1/2018-Admn.I(LA).—The President is pleased to appoint Shri R. K. Srivastava, Deputy Legal Adviser (Grade-III of Indian Legal Service) to the post of Additional Legal Adviser (Grade-II of Indian Legal Service) in the level 13 of Pay Matrix in the Department of Legal Affairs, Ministry of Law & Justice, on ad hoc basis with effect from the forenoon of 28th February, 2018, till he is promoted on regular basis or until further orders, whichever is earlier.

A. K. JOSHI, Dy. Secretary

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS
(DEPARTMENT OF PERSONNEL AND TRAINING)

New Delhi, the 5th March 2018

No. A-38014/16/2017-Admn.I.—Consequent upon attaining the age of superannuation, Shri Ajay Mittal, IAS [HP:1982], Secretary, Department of Personnel and Training retired from Government service with effect from the afternoon of 28th February, 2018.

AJAY KUMAR SINGH, Under Secretary

CENTRAL BUREAU OF INVESTIGATION

New Delhi, the 13th March 2018

No. 03/55/2014.—Shri S.L. Garg, Deputy Superintendent of Police, CBI, AC-VI/SIT, New Delhi has relinquished charge of the post of Dy. Supdt. of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the forenoon 29.12.2017 on Voluntary Retirement.

D. P. SINGH, Admn. Officer (Administration)

New Delhi, the 19th March 2018

No. 03/109/2010.—Shri Lee Thomas Salu, Deputy Superintendent of Police, CBI, Special Police Establishment, ACB, Imphal has relinquished charge of the post of Deputy Superintendent of Police, Central Bureau of Investigation with effect from the afternoon 28/02/2018 on attaining the age of retirement on superannuation.

D. P. SINGH, Admn. Officer (Admn.)

MINISTRY OF EXTERNAL AFFAIRS

New Delhi, the 4th January 2018

No. 04/PB-II/2017.—On attaining the age of superannuation, Shri S. Rajan, PS [DOB: 02.12.1957], formerly Private secretary [Grade I Stenographer in Stenographers' Cadre of IFS (B)] in this Ministry, retired from the Government service in the afternoon of 31st December, 2017.

JITENDRA KUMAR SINGH, Admn. Officer (PB-II)

MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS
(DEPARTMENT OF CHEMICALS AND PETROCHEMICALS)

New Delhi, the 31st January 2018

No. A-19011/1/2018-Estt.—In pursuance of Ministry of Statistics & Programme Implementation's Office Order No. 12015/01/2017-ISS dated 4th December, 2017 and Central Electricity Authority's Office Order No. 1/29/2016-Adm.II(CEA) dated 2nd January, 2018 the President is pleased to appoint Sh. Rakesh Kumar Kamra, as Deputy Director General in the Department of Chemicals & Petrochemicals, consequent upon his transfer, in Level 14 of pay matrix, as per 7th CPC, with effect from the afternoon of 05.01.2018.

T. P. N. SINGH, Under Secretary

DEPARTMENT OF ATOMIC ENERGY

(DIRECTORATE OF CONSTRUCTION, SERVICES AND ESTATE MANAGEMENT)

Mumbai, the 14th March 2018

No. DCSEM/A/9(334)/2018-Rectt./300.—The President is pleased to appoint Shri Mayank Agrawal as Scientific Officer/C on an initial pay of ₹ 61,300/- (including 3 additional increments) in Level 10 of Pay Matrix in the Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy with effect from the forenoon of 01/08/2016 in a temporary capacity until further orders.

S. KOMALAVALLI, Administrative Officer-III

No. DCSEM/A/9(334)/2018-Rectt./301.—The President is pleased to appoint Shri Mayank Sharma as Scientific Officer/C on an initial pay of ₹ 61,300/- (including 3 additional increments) in Level 10 of Pay Matrix in the Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy with effect from the forenoon of 01/08/2016 in a temporary capacity until further orders.

S. KOMALAVALLI, Administrative Officer-III

No. DCSEM/A/9(334)/2018-Rectt./302.—The President is pleased to appoint Shri Shubham Taliyan as Scientific Officer/C on an initial pay of ₹ 61,300/- (including 3 additional increments) in Level 10 of Pay Matrix in the Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy with effect from the forenoon of 01/08/2016 in a temporary capacity until further orders.

S. KOMALAVALLI, Administrative Officer-III

No. DCSEM/A/9(334)/2018-Rectt./303.—The President is pleased to appoint Shri Suyash Subhash Patkar as Scientific Officer/C on an initial pay of ₹ 61,300/- (including 3 additional increments) in Level 10 of Pay Matrix in the Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy with effect from the forenoon of 01/08/2017 in a temporary capacity until further orders.

S. KOMALAVALLI, Administrative Officer-III

No. DCSEM/A/9(334)/2018-Rectt./304.—The President is pleased to appoint Shri Soubhagya Karmakar as Scientific Officer/C on an initial pay of ₹ 61,300/- (including 3 additional increments) in Level 10 of Pay Matrix in the Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy with effect from the forenoon of 01/08/2017 in a temporary capacity until further orders.

S. KOMALAVALLI, Administrative Officer-III

No. DCSEM/A/9(334)/2018-Rectt./305.—The President is pleased to appoint Shri Tajinder Singh Lamba as Scientific Officer/C on an initial pay of ₹ 61,300/- (including 3 additional increments) in Level 10 of Pay Matrix in the Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy with effect from the forenoon of 01/08/2017 in a temporary capacity until further orders.

S. KOMALAVALLI, Administrative Officer-III

No. DCSEM/A/9(334)/2018-Rectt./306.—The President is pleased to appoint Shri Siddhartha Dhariwal as Scientific Officer/C on an initial pay of ₹ 61,300/- (including 3 additional increments) in Level 10 of Pay Matrix in the Directorate of Construction, Services & Estate Management, Department of Atomic Energy with effect from the forenoon of 01/08/2017 in a temporary capacity until further orders.

S. KOMALAVALLI, Administrative Officer-III

MINISTRY OF WATER RESOURCES, RIVER DEVELOPMENT AND GANGA REJUVENATION

New Delhi, the 6th March 2018

No. 7/19/2014-CGWB.—The President is pleased to promote the following Assistant Hydrogeologists as Junior Hydrogeologist (Scientist 'B', Group-'A' Gazetted) with effect from the date they assumed charge of the post in Level-10 of Pay Matrix (pre-revised pay scale PB-3, Rs.15600-39100/- + Grade Pay of Rs.5400/-) in the Central Ground Water Board as indicated against each:

S. No.	Name of the officer	Date of charge assumption to the post of Jr. Hydrogeologist
1.	Sh. Sujeet Kumar	14.12.2017(AN)
2.	Sh. Anmol Sharma	15.12.2017(FN)
3.	Sh. G. Sreenath	18.12.2017(AN)
4.	Sh. M. Paneer	14.12.2017(AN)
5.	Dr. K. Raja Rajan	14.12.2017(AN)
6.	Sh. Anil Kumar Singh	14.12.2017(AN)
7.	Sh. S. Chakraborty	15.12.2017(FN)
8.	Smt. S. Saritha	14.12.2017(AN)

A. K. WAHI, Under Secretary

New Delhi, the 9th March 2018

No. 32012/9/2017-GWE.—The President is pleased to appoint Shri Alok Kumar Dube, Regional Director (Engg.) as Member (Engineering) in Level-14 of Pay Matrix (pre-revised pay scale PB-4, Rs. 37400-67000/- + Grade Pay of Rs. 10000/-) in the Central Ground Water Board with effect from 23.01.2018 (FN) and posted as Member (North & West).

A. K. WAHI, Under Secretary